

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 58]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 फरवरी 2015—माघ 17, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2015

क्र. एफ-65-02-2015-तीन-नपा-267.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 22 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिक निगम इंदौर, जिला इंदौर के माह जनवरी 2015 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति महापौर/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्र.	नगरपालिक निगम का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् महापौर / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता	
(1)	(2)	(3)	अंकों में (4)	शब्दों में (5)	(6)	(7)
1	नगरपालिक निगम	महापौर	—	—	मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़	भारतीय जनता पार्टी
2	इंदौर जिला इंदौर.	पार्षद	1	एक	प्रीति विशाल (गोलू) अग्निहोत्री.	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	मोहम्मद मुबारीक मंसुरी	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	गोपाल मालु	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	चंगीराम यादव	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	राजेश चौहान	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	दिपक जैन (टीनू)	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	मनोज मिश्रा	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	शेखमोहम्मद असलम (अनवर दस्तक)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	अनिता सर्वेश तिवारी	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	नगरपालिक निगम	पार्षद	10	दस	विनितिका दीपू यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12	इंदौर, जिला इंदौर.	पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती भागवती मांगीलाल रेडवाल.	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	संतोष सिंह गौर	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	चंदा सुरेन्द्र बाजपेयी	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	नीता मुकेश शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	कुंवर भगवन सिंह चौहान	भारतीय जनता पार्टी
17		पार्षद	16	सोलह	अश्विनी लक्ष्मीनारायण शुक्ल	भारतीय जनता पार्टी
18		पार्षद	17	सत्रह	श्रीमती पार्वती अशोक कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अठारह	भूपेन्द्र उर्फ शेखर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
20		पार्षद	19	उन्नीस	सुनीता दिलीप मिश्रा	भारतीय जनता पार्टी
21		पार्षद	20	बीस	महेन्द्र चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
22		पार्षद	21	इक्कीस	श्रीमती माधवी चिन्टू चोकसे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
23		पार्षद	22	बाईस	शंकुन्तला गुर्जर	भारतीय जनता पार्टी
24		पार्षद	23	तेईस	राजकपूर सुनहरे	भारतीय जनता पार्टी
25		पार्षद	24	चौबीस	प्रिया यादव (जाटव)	भारतीय जनता पार्टी
26		पार्षद	25	पच्चीस	चन्दू राव शिन्दे	भारतीय जनता पार्टी
27		पार्षद	26	छब्बीस	श्रीमती यशोदा धीमान (दीदी)	निर्दलीय
28		पार्षद	27	सत्ताईस	“श्रीमती सुधा चौधरी”	भारतीय जनता पार्टी
29		पार्षद	28	अट्ठाईस	सुधीर नवनाथ कोल्हे	भारतीय जनता पार्टी
30		पार्षद	29	उन्नतीस	“पूजा पाटीदार”	भारतीय जनता पार्टी
31		पार्षद	30	तीस	तमन्ना मुकेश केरो	भारतीय जनता पार्टी
32		पार्षद	31	इकत्तीस	श्रीमती सरोज चौहान	भारतीय जनता पार्टी
33		पार्षद	32	बत्तीस	“छाया भरत देशमुख”	भारतीय जनता पार्टी
34		पार्षद	33	तेत्तीस	राजेन्द्र राठौर	भारतीय जनता पार्टी
35		पार्षद	34	चौत्तीस	मुन्नालाल यादव	भारतीय जनता पार्टी
36		पार्षद	35	पैंतीस	संध्या सुभाष सोलंकी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
37		पार्षद	36	छत्तीस	कोमल जीवन पंचोली	भारतीय जनता पार्टी
38		पार्षद	37	सैंतीस	संजय कटारिया	भारतीय जनता पार्टी
39		पार्षद	38	अड़तीस	उस्मान पटेल	भारतीय जनता पार्टी
40		पार्षद	39	उन्नतालीस	रूबीना इकबाल खान	निर्दलीय
41		पार्षद	40	चालीस	अनिता सुनिल पाटीदार	भारतीय जनता पार्टी
42		पार्षद	41	इकतालीस	प्रणव मण्डल	भारतीय जनता पार्टी
43		पार्षद	42	बयालीस	अजयसिंह नरूका	भारतीय जनता पार्टी
44		पार्षद	43	तैंतालीस	दिलीप शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
45		पार्षद	44	चौवालीस	रूपेश देवलिया	निर्दलीय
46		पार्षद	45	पैंतालीस	सूरज केरो	भारतीय जनता पार्टी
47		पार्षद	46	छियालीस	प्रेमचंद पिता गोपीलाल	भारतीय जनता पार्टी
48		पार्षद	47	सैंतालीस	कविता खोवाल	भारतीय जनता पार्टी
49		पार्षद	48	अड़तालीस	जितेन्द्र चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
50		पार्षद	49	उनन्चास	आशा होलासराय सौनी (जैन)	भारतीय जनता पार्टी
51		पार्षद	50	पचास	सुनीता राजेश सोलंकी	भारतीय जनता पार्टी
52		पार्षद	51	इक्यावन	वंदना यादव	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
53	नगरपालिक निगम	पार्षद	52	बावन	चौधरी सुभाष	भारतीय जनता पार्टी
54	इंदौर, जिला इंदौर.	पार्षद	53	तिरेपन	फौजिया शेख अलीम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
55		पार्षद	54	चौवन	श्रीमति मंजू राकेश गोयल	भारतीय जनता पार्टी
56		पार्षद	55	पचपन	छोटे यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
57		पार्षद	56	छप्पन	श्रीमति नंदा बाई गावड़े	भारतीय जनता पार्टी
58		पार्षद	57	सत्तावन	दिपीका कमलेश नाचन	भारतीय जनता पार्टी
59		पार्षद	58	अट्ठावन	जुलेखा अनवर कादरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
60		पार्षद	59	उनसठ	रत्नेश बागड़ी	भारतीय जनता पार्टी
61		पार्षद	60	साठ	अनसाफ अंसारी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
62		पार्षद	61	इकसठ	अभय वर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
63		पार्षद	62	बासठ	जगदीश चौधमल धनेरिया	निर्दलीय
64		पार्षद	63	तिरेसठ	शोभा रामदास गर्ग	भारतीय जनता पार्टी
65		पार्षद	64	चौसठ	सीमा कैलाश विरांग	भारतीय जनता पार्टी
66		पार्षद	65	पैंसठ	सरिता जवाहर मंगवानी	भारतीय जनता पार्टी
67		पार्षद	66	छियासठ	कंचन गिदवानी	भारतीय जनता पार्टी
68		पार्षद	67	सड़सठ	राजेश शुक्ला	भारतीय जनता पार्टी
69		पार्षद	68	अड़सठ	समरीन अयाज बेग	इंडियन नेशनल कांग्रेस
70		पार्षद	69	उनहत्तर	शंकर यादव 'सर'	भारतीय जनता पार्टी
71		पार्षद	70	सत्तर	सुधीर देडगे	भारतीय जनता पार्टी
72		पार्षद	71	इकहत्तर	भारत	भारतीय जनता पार्टी
73		पार्षद	72	बहत्तर	विनीता नारायण धर्म	भारतीय जनता पार्टी
74		पार्षद	73	तिहत्तर	मो. सादिक खान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
75		पार्षद	74	चौहत्तर	सुरेन्द्र सिंह गुड्डू छाबड़ा	भारतीय जनता पार्टी
76		पार्षद	75	पचहत्तर	श्रीमति पुष्पा बसंत पारगी	भारतीय जनता पार्टी
77		पार्षद	76	छिहत्तर	चन्द्रकला पिता स्व. श्री राधाकिशन मालवीय.	इंडियन नेशनल कांग्रेस
78		पार्षद	77	सतहत्तर	पुष्पेन्द्र सिंह चौहान	भारतीय जनता पार्टी
79		पार्षद	78	अठहत्तर	श्रीमति सावित्री ओमप्रकाश आर्य.	भारतीय जनता पार्टी
80		पार्षद	79	उन्यासी	रेखा हेमेन्द्र सिंह ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
81		पार्षद	80	अस्सी	बलराम वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
82		पार्षद	81	इक्यासी	द्रोपती निलेश चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
83		पार्षद	82	बयासी	श्रीमती लक्ष्मी हेमन्त	भारतीय जनता पार्टी
84		पार्षद	83	तेरासी	लता लढा	भारतीय जनता पार्टी
85		पार्षद	84	चौरासी	देवेन्द्र रावत	भारतीय जनता पार्टी
86		पार्षद	85	पिच्चासी	ज्योति तोमर एडव्होकेट	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( जी.पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.